



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012025-260210
CG-DL-E-14012025-260210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946

No. 29]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/ PAUSHA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 33(अ).—स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 के साथ पठित विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
2. इन नियमों को स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
3. ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम तौर पर प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
4. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 में,
- क. खंड (xxxiii) के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
 "(xxxiii) "सूक्ष्म और लघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) और खंड (ड) में परिभाषित उद्यम अभिप्रेत है।
 (xxxiiiख) "सूक्ष्म और लघु उद्यम" से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकृत तथा सा.का.नि. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 की राजपत्रित अधिसूचना के पैराग्राफ 1 के खंड (क) में यथापरिभाषित निकाय अभिप्रेत है।"
- ख. अनुच्छेद (xliiv) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "(xiv) "महिला उद्यमियों" से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण वाले ऐसे उद्यम अभिप्रेत हैं, जिसकी पूंजी में उनका न्यूनतम 26 प्रतिशत वित्तीय हित शामिल है।"
3. उक्त नियम की अनुसूची I को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची-I**(नियम 4, 6, 11, 12, 35, 46, 49, 50, 53, 54, 60, 61 का संदर्भ लें)****क. अनुज्ञप्ति प्ररूप, प्रयोजन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति शुल्क**

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति का प्ररूप	प्रयोजन, जिसके लिए प्रदान किया गया है	अनुज्ञप्ति मंजूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी	अनुज्ञप्ति फीस (रुपए में)	स्टार्टअप्स सहित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फीस	महिलाओं के लिए (रुपए में)
1.	एलएस- 1क	दाबपात्रों में संपीडित गैस का भण्डारण।	मुख्य नियंत्रक या उनके द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक।	क. जहां संस्थापन में कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक नहीं है वहां 5,000 रुपए। ख. जहां संस्थापन में पात्रों की कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक है वहां प्रथम 5,000 लीटरों के लिए 5000 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके	क. जहां संस्थापन में कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक नहीं है वहां 2500 रुपए। ख. जहां संस्थापन में पात्रों की कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक है वहां प्रथम 5,000 लीटरों के लिए 2500 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके	क. जहां संस्थापन में कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक नहीं है वहां 1,000 रुपए। ख. जहां संस्थापन में पात्रों की कुल जलधारिता 5000 लीटर से अधिक है वहां प्रथम 5,000 लीटरों के लिए 1000 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 1000 या उसके

				किसी भाग के लिए 2500 रुपए, जो 50,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।	किसी भाग के लिए 1250 रुपए, जो 25,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।	किसी भाग के लिए 500 रुपए, जो 10,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।
2.	एलएस-1ख	मोटर वाहनों में ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में ऑटो एलपीजी के परिक्षेपण के लिए ऑटो एलपीजी का भण्डारण और परिक्षेपण।	मुख्य नियंत्रक या उनके द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।
3.	एलएस-1ग	मोटर वाहनों में ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में ऑटो एलएनजी के परिक्षेपण के लिए ऑटो एलएनजी का भण्डारण और परिक्षेपण और/अथवा एलसीएन परिक्षेपण के संबंध में एनएनजी का भंडारण।	मुख्य नियंत्रक या उनके द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।	यथावत जैसा कि अनुज्ञप्ति प्ररूप एलएस-1क में है।
4.	एलएस-2	वाहन द्वारा दाबपात्र में परिवहन के लिए।	मुख्य नियंत्रक या उनके द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक।	5000/- रुपए	2500/- रुपए	1000/- रुपए

ख. अनुज्ञप्ति फीस से अलग फीस

क्रम सं.	प्रयोजन	अनुज्ञप्ति फीस	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फीस (रुपए में)	सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप्स के लिए फीस (रुपए में)	महिलाओं के लिए (रुपए में)
1.	नियम 4(3) (i) और (ii) के अधीन दाबपात्र, वाष्पित्र और फिटिंग विनिर्माण हेतु दुकान के	5000 प्रतिवर्ष	2500 प्रतिवर्ष	2500 प्रतिवर्ष	1000 प्रतिवर्ष

	अनुमोदन या नवीकरण के लिए अनुमोदन				
2.	नियम 4(3) (iii) के अधीन दाबपात्र, वाष्पित्र और फिटिंग के अभिकल्पना (डिजाइन) आरेखण का अनुमोदन	2500/-	1250/-		500/-
3.	नियम 4(5) के अधीन दाबपात्र का आयात	5000/-	2500/-	2500/-	1000/-
4.	नियम 6 के अधीन दाबपात्रों की मरम्मत	2500/-	1250/-	1250/-	500/-
5.	नियम 12 के अधीन सक्षम व्यक्ति/निरीक्षक को मान्यता	5000/- प्रति वर्ष	2500 प्रति वर्ष	2500 प्रति वर्ष	1000 प्रति वर्ष
6.	नियम 35(2) के अधीन संपीडित गैस के परिवहन हेतु वाहन के माउंटिंग आरेखण का अनुमोदन	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
7.	नियम 46 के अधीन पात्रों और परिसर के विनिर्देश और योजना का पूर्वानुमोदन	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
8.	नियम 49 (3) के अधीन अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए	1000/-	500/-	500/-	200/-
9.	नियम 53(2) के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में फेरबदल हेतु पूर्वानुमोदन	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
10.	नियम 54(1) के अधीन अनुज्ञप्ति का संशोधन	1000/-	500/-	500/-	200/-
11.	नियम 54(2) के अधीन अनुज्ञप्ति का अंतरण	1000/-	500/-	500/-	200/-
12.	नियम 60 (2) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या अक्षमता के मामले में नई अनुज्ञप्ति जारी करना	1000/-	500/-	500/-	200/-
13.	नियम 61 के अधीन अनुज्ञप्ति की अनुलिपि जारी करने के लिए	1000/-	500/-	500/-	200/-
14.	संस्थापक/संचालक को मान्यता प्रदान करना/नवीकरण करना, जैसा कि अनुसूची-II और IV में उल्लिखित है	5000 प्रतिवर्ष	2500 प्रतिवर्ष	2500 प्रतिवर्ष	1000 प्रतिवर्ष

(क) फीस में उपर्युक्त उप-नियम (1) में यथाउल्लिखित छूट का दावा करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्:-

क. सूक्ष्म और लघु उद्यम – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

बशर्ते कि उपर्युक्त छूट केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू है। यह मध्यम उद्यमों के लिए नहीं है।

ख. सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में पंजीकरण संबंधी दस्तावेज़ी प्रमाण।

बशर्ते कि उपर्युक्त छूट केवल सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप्स के लिए लागू है। यह मध्यम स्टार्टअप्स के लिए नहीं है।

ग. महिला उद्यमी – फर्म अथवा कंपनी के प्रोप्राइटर अथवा निदेशक संबंधी दस्तावेज़ी प्रमाण।

(ख) उस मामले में, जहां सूक्ष्म और लघु उद्यम अथवा सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप महिला के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, वहां जो भी फीस कम हो, वह लागू होगी।

बशर्ते कि किसी भी स्तर पर आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा भ्रामक पाए जाने पर अनुमोदन अथवा अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है।”

[फा सं. पी-13033/92/2023-EXPLOSIVE]

डॉ संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1109(अ), तारीख 01 दिसंबर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, और बाद में सा.का.नि. 388(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2018, सा.का.नि. 148(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2019 और सा.का.नि. 609(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2021 के माध्यम से इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 11th December, 2024

G.S.R. 33(E).— The draft of the following rules to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 read with section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULE

1. Short titled and commencement:-
2. These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2024.
3. They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
4. In rule 2 of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (herein after referred to as said rules),
 - a. after clause (xxxiii), the following clauses shall be inserted namely:-

“(xxxiiia) “Micro and Small Enterprises” means an enterprise defined in clause (h) and clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(xxxiiib) “Micro & Small Startup” means an entity registered with Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry and as defined in clause (a) of paragraph 1 of the Gazette Notification having G.S.R. 127(E) dated 19th February, 2019”.

- b. after clause (xliv), the following clause shall be inserted namely:-

“(xlv) “Women Entrepreneur” means an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26% of the capital”.

3. For Schedule I of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I

(Refer rules 4,6,11,12,35,46,49,50,53,54,60,61)

A. Licence Forms, Purposes, Licensing Authority and Licence Fees

Sl. No	Form of License	Purpose for which granted	Authority empowered to grant license	License fee (in Rs.)	Fees for Micro & Small Enterprises including Startup (in Rs)	For Women (in Rs.)
1.	LS-1A	To store compressed gas in pressure vessels.	Chief Controller or Controller authorised by him.	<p>a. Where the total water capacity of vessels in an installation does not exceed 5,000 litres. Rs.5000.</p> <p>b. Where the total water capacity of vessels in an installation exceeds 5,000 litres. Rs.5000 litres for the first 5,000 litres and for every additional 1,000 litres or part thereof Rs. 2500 subject to a maximum of Rs. 50,000.</p>	<p>a. Where the total water capacity of vessels in an installation does not exceed 5,000 litres. Rs.2500.</p> <p>b. Where the total water capacity of vessels in an installation exceeds 5,000 litres. Rs.2500 litres for the first 5,000 litres and for every additional 1,000 litres or part thereof Rs. 1250 subject to a maximum of Rs. 25,000.</p>	<p>a. Where the total water capacity of vessels in an installation does not exceed 5,000 litres. Rs.1000.</p> <p>b. Where the total water capacity of vessels in an installation exceeds 5,000 litres. Rs.1000 litres for the first 5,000 litres and for every additional 1,000 litres or part thereof Rs. 500 subject to a maximum of Rs. 10,000.</p>
2.	LS-1B	To store and dispense auto-LPG in auto-LPG dispensing station as automotive fuel to motor vehicles.	Chief Controller or Controller authorised by him.	Same as the licence in Form LS-1A.	Same as the licence in Form LS-1A.	Same as the licence in Form LS-1A.
3.	LS-1C	To store and dispense auto-LNG in auto-LNG dispensing	Chief Controller or Controller authorised by him.	Same as the licence in Form LS-1A.	Same as the licence in Form LS-1A.	Same as the licence in Form LS-1A.

		station as automotive fuel to motor vehicles and/or store LNG in connection with LCNG dispensing.				
4.	LS-2	To transport in pressure vessel by him.	Chief Controller or Controller authorised by him.	Rs. 5000/-	Rs. 2500/-	Rs. 1000/-

B: Fee other than license fee

Sl. No.	Purpose	License fee (in Rs.)	Fees for Micro & Small Enterprises (in Rs)	Fees for Micro & Small Startup (in Rs)	For Women (in Rs.)
1.	Approval or renewal of shop approval to manufacture pressure vessel, vaporizer and fittings under Rule 4 (3) (i) and (ii).	5000/ Year	2500/ Year	2500/ Year	1000/ Year
2.	Approval of design drawing of pressure vessel, vaporizer & fittings under Rule 4(3) (iii).	2500/-	1250/-	1250/-	500/-
3.	Import of pressure vessel under Rule 4(5).	5000/-	2500/-	2500/-	1000/-
4.	Repairing of pressure vessel under Rule 6.	2500/-	1250/-	1250/-	500/-
5.	Recognition of competent person/inspector under Rule 12.	5000 / Year	2500 / Year	2500 / Year	1000 / Year
6.	Approval of vehicle mounting drawing for transport of compressed gas under Rule 35(2).	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
7.	Prior approval of specification and plans of vessels and premises under Rule 46.	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
8.	Issue of authenticated copy of licence under Rule 49(3).	1000/-	500/-	500/-	200/-
9.	Prior approval of alternation in the licensed premises under Rule 53(2).	2000/-	1000/-	1000/-	400/-
10.	Amendment of licence under Rules 54(1).	1000/-	500/-	500/-	200/-
11.	Transfer of licence under Rule 54(2).	1000/-	500/-	500/-	200/-
12.	Issue of new licence in case of death or	1000/-	500/-	500/-	200/-

	disability of licensee under Rule 60(2).				
13.	Issue of duplicate copy of licence under Rule 61.	1000/-	500/-	500/-	200/-
14.	Grant / Renewal of recognition for installer / operator as mentioned in Schedule-II and IV	5000 / Year	/2500 / Year	2500 / Year	1000 / Year

(A) For the purpose of claiming relaxation in fees as mentioned in sub-rule (1) above, the applicant shall submit the following documents, namely:-

- a. Micro and Small Enterprises - Certificate issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Enterprises and not for Medium Enterprises.

- (b) Micro and *Small Startup* - Documentary evidence towards registration with *Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Startup and not for Medium Startup.

- (c) Women Entrepreneur - Documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company

(B) In case where Micro and Small Enterprises or Micro and Small Startup *owned and controlled by a woman*, the fees whichever is lower shall be applicable.

Provided that if information submitted by the applicant, is found to be false or misleading at any stage, the approval or license shall be liable to be cancelled”.

[F.No. P-13033/92/2023-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 553(E) dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 469(E) dated 9th July 2013, G.S.R. 938(E) dated 27th September, 2018 and G.S.R. 608(E), dated the 31st August, 2021.